



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

सं० 126]  
No. 126]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1981/चैत्र 10, 1903  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1981/CHAITRA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

सीमा-शुल्क

सं० का० नि० 251(अ) — केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 206-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के मब (5) में, प्रविष्टि (iii) के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“(iii) ऐसे शस्त्रसज्जन और विशेषोद्भूत यानों के, जो रक्षा सेवाओं के लिए विशेष स्वरूप के होते हैं, कालतू पुर्जे, सहायक सामग्री, जिग, भोजार, परीक्षण, उपस्कर, संघटक विशेष कच्चा माल और अन्य पिटका जैसे हथियार को पॉट कर और डाल कर बनाई गई ऐसी वस्तुएं, जिनका परिष्कृत संघटका में प्रसम्पकरण किया जाएगा।”

[सं० 95/का० सं० 355/9/81-पी० शु० I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st March, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 206-Customs dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, in item (5), for entry (iii), the following entry shall be substituted, namely:—

“(iii) Spare parts, accessories, jigs, tools testing equipment, components, special raw materials and half wroughts like steel forgings and castings to be processed into finished components for armoured and specialised vehicles peculiar to the Defence Services.”

[No. 95/F. No. 355/9/81-Cus. I]

सं० का० नि० 252 (अ) — केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व

और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 193-सी० शु० तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करना है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) "आयुक्त प्लेटों" शब्दों के स्थान पर "असंस्कृत आयुक्त प्लेटों" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) पैरा 2 में, "31 मार्च 81" शब्दों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 1983" शब्द और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 96/का० सं० 355/9/81-सी० शु०-I]

**G.S.R. 252(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 198-Customs dated 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification—

- (i) for the words "armour plates", the words "unfinished armour plates" shall be substituted ;
- (ii) in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of March, 1981", the figures, letters and words "31st day of March, 1983" shall be substituted.

[No. 96/F. No. 355/9/80-Cus. I]

**सं० का० नि० 253 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 179-सीमा-शुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 1981" शब्दों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 1982" शब्द और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 97/का० सं० 355/1/81-सी० शु०-I]

**G.S.R. 253(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 2-Customs, dated the 1st January, 1979, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 1981", the figures, letters and words "31st day of March, 1982" shall be substituted.

[No. 97/F. No. 355/1/81-Cus. I]

**सं० का० नि० 254 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 179-सीमा-शुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, "31 मार्च, 1981" शब्दों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 1982" शब्द और शब्द रखे जाएंगे :

[सं० 98/का० सं० 355/1/81-सी० शु०-I]

के० चन्द्रमौलि, धरर सचिव

**G.S.R. 254(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 179-Customs dated the 22nd August, 1979, namely :—

In paragraph 2 of the said notification for the figures, letters and words "31st day of March, 1981" the figures, letters and words "31st day of March, 1982" shall be substituted.

[No. 98/F. No. 355/1/81-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.